

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल ने उ०प्र० क्षय निवारक संस्था के 65वें टी०बी० सील बिक्री
अभियान का उद्घाटन किया
राज्यपाल ने लघु पुस्तिका 'क्षय रोग-प्रश्न आपके उत्तर हमारे' का विमोचन किया

लखनऊ: 07 अक्टूबर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश क्षय-निवारक संस्था, श्री राम नाईक ने कहा है कि क्षय रोग एक गम्भीर बीमारी है, परन्तु लाइलाज नहीं। विज्ञान के दौर में सही उपचार रोगी को समय से प्राप्त हो जाये तो वह ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्षय निवारक संस्था को और गतिशील एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। टी०बी० रोग की रोकथाम के लिये संस्था द्वारा उचित प्रचार-प्रसार भी जरूरी है तथा इस संस्था के साथ महिलाओं और युवा वर्ग को जोड़ने की आवश्यकता है। क्षय रोग से बचने की जानकारी तथा समुचित इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिये। राज्यपाल आज राजभवन में उत्तर प्रदेश क्षय निवारक संस्था के 65वें टी०बी० सील बिक्री अभियान का उद्घाटन करते हुए उक्त उद्गार व्यक्त किये।

राज्यपाल ने इस अवसर पर डा० सूर्यकान्त, विभागाध्यक्ष, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा लिखित लघु पुस्तिका 'क्षय रोग-प्रश्न आपके उत्तर हमारे' का लोकार्पण भी किया। यह पुस्तक क्षय रोग के बारे में लिखी गई है। श्री नाईक ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक काफी उपयोगी होगी और क्षय रोग से प्रभावित लोग इससे लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर पूर्व सांसद, श्री भगवती सिंह, पूर्व मंत्री, डा० सुरजीत सिंह डंग, पूर्व मंत्री, श्री अशोक बाजपेई, संस्था के चेयरमैन, श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य सदस्य व पदाधिकारी तथा राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटंकर भी उपस्थित थीं।

अंजुम/रा०/राजभवन

